

WELLAND GOULDSMITH SCHOOL
CLASS: 8
SUBJECT: 2nd LANGUAGE HINDI
TOPIC: अपठित गद्यांश
ANSWER SHEET

उत्तर) ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर :-

- 1) नामू की मां ने उसे एक कुल्हाड़ी लेकर यह आदेश दिया वह जंगल में जाकर पलाश के पेड़ से कुछ छाल उतार लाए।
- 2) जब नामू घर लौट रहा था तब उसके मन में यह विचार आया कि कहीं छाल उतारते समय पेड़ को कुल्हाड़ी से चोट तो नहीं लगी क्योंकि कुल्हाड़ी से प्रहार करते समय पेड़ से एक आवाज निकलती हुई उसे महसूस हो रही थी।
- 3) नामू ने घर आकर अपना पैर उस कुल्हाड़ी से रगड़ना शुरू किया। जब उसके पैर से खून बहने लगा और पैर में पीड़ा होने लगी तब उसे उस पेड़ की पीड़ा का अनुभव हुआ।
- 4) मां ने जब देखा कि नामू की धोती खून से लाल हो गई है तो वह चिंतित हो उठी। नामू ने मां को चिंतित होते देखकर यह बताया कि कुल्हाड़ी से पलाश की छाल उतारते समय उसे लग रहा था जैसे पेड़ कराह रहा है और उसे पीड़ा हो रही है। तब उसने पेड़ के दर्द को महसूस करने के लिए अपने पांव पर कुल्हाड़ी रगड़ी और यह जानना चाहा कि सभी को एक सी ही पीड़ा होती है।
- 5) मां ने अपने बेटे नामू के लिए यह भविष्यवाणी की कि एक दिन वह बहुत बड़ा संत बनेगा। आगे चलकर यही बालक संत "नामदेव" के नाम से महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संत हुआ।

उत्तर) ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर :-

- 1) विलोम शब्द :-
अधिक कम
दुख सुख
पराया अपना
प्रसिद्ध सामान्य
- 2) पर्यायवाची शब्द :-
मां माता, जननी
जंगल विपिन, कानन
पेड़ वृक्ष, विटप
आंख नयन, नेत्र

- 3) वाक्य बनाइए :-
अश्रु -- मुझे अपनी माता की आंखों से बहते अश्रु अच्छे नहीं लगते।
पीड़ा -- आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है।
प्रहार-- सैनिकों ने अपने शत्रुओं पर चारों तरफ से प्रहार किया।
-

